

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 575]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 सितम्बर 2019 — भाद्रपद 20, शक 1941

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2019

अधिसूचना

फा. क्र. 08/चार/वि.स. उप निर्वा./2019/7482. — भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी निदेश संख्या /576/3/ईवीएम/2019/ एस.डी.आर/खण्ड-I दिनांक 03 सितम्बर, 2019 द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 88-दंतेवाड़ा (अ.ज.जा.) विधानसभा उप निर्वाचन-2019 हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं VVPAT का प्रयोग संबंधी आयोग के निदेश एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./-
(सुब्रत साहू)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 3 सितम्बर, 2019

निदेश

सं. 576/3/ईवीएम/2019/एसडीआर/खण्ड-I. — यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 क यह उपबंधित करती है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतों का डाला जाना और रिकार्ड करना ऐसी रीति से किया जाए जैसा कि निर्धारित किया जाए और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, ऐसे डिजाइन वाले ड्रॉप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, निदेश दिया जाए, मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाए; और

3. यतः आयोग ने छत्तीसगढ़ में 88-दन्तेवाड़ा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, केरल में 93-पाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, त्रिपुरा में 14-बधारघाट (अ.ज.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में 228-हमीरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें वर्तमान में उप-निर्वाचन चल रहे हैं, की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, तथा मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा उक्त प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं.

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा छत्तीसगढ़ में 88-दन्तेवाड़ा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, केरल में 93-पाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, त्रिपुरा में 14-बधारघाट (अ.ज.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में 228-हमीरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें 28-08-2019 को उक्त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से अधिसूचित किए गए संबंधित छत्तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश के चालू उप-निर्वाचनों में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकार्ड किए जाएंगे.

5. आयोग एतद्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर, से उक्त वोटिंग मशीनों के साथ-संलग्न किया जाएगा, के डिजाइन को भी अनुमोदित करता है जिनका उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतों को डालने और रिकार्ड करने के लिए उपयोग किया जाएगा.

आदेश से,

हस्ता./-

(आनन्द कुमार पाठक)

सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 3rd September, 2019

DIRECTION

No. 576/3/EVM/2019/SDR-Vol-I. — Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of Votes by voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and
3. Whereas, the Commission has considered the circumstances in 88-Dantewada (ST) Assembly Constituency in the State of Chhattisgarh, 93-Pala Assembly Constituency in the State of Kerala, 14-Badharghat (SC) Assembly Constituency in the State of Tripura and 228-Hamirpur Assembly Constituency in the State of Uttar Pradesh, in which bye-elections are currently in progress, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines and Printers for Paper Trail are available for taking the poll in the above mentioned Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and Printer for Paper Trail and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines and the said Printers;
4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies 88-Dantewada (ST) Assembly constituency in the State of Chhattisgarh, 93-Pala Assembly Constituency in the State of Kerala, 14-Badharghat (SC) Assembly Constituency in the State of Tripura and 228-Hamirpur Assembly Constituency in the State of Uttar Pradesh, as the constituencies in which the votes at the current bye-elections to the States Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Kerala, Tripura & Uttar Pradesh from the said constituencies, notified on 28-08-2019, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines and Printers for Paper Trail in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.
5. The Commission also hereby approves the design of the Electronic Voting Machine and the Printer with the drop box (VVPAT) as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said voting machines, to be used for the giving and recording of votes in the above said Assembly Constituencies.

By order,

Sd/-
(A. K. Pathak)
Secretary.